



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name : Mrs. Bala Last Name : Devi

Age : 42 Y / F Gender : Male Female

Address : _____

Contact No. : _____

E-mail ID _____

Referred by _____ Contact No. : _____

For Maternal Screening - Date of Birth :- DD MM YYYY

Weight : _____ kg. Height : _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report

Billing Information

Client Name : Shri Balaji Multispeciality Hospital

Client ID : _____

Total Amount : _____

Amount Received : _____ Receipt No. : _____

Amount Balance / Due : _____

Payment via : CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

<input type="checkbox"/> Serum	<input type="checkbox"/> Bone Marrow	<input type="checkbox"/> CSF
<input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT	<input type="checkbox"/> FN Aspirate	<input type="checkbox"/> Fluid
<input type="checkbox"/> SST	<input checked="" type="checkbox"/> Tissue Formalin	<input type="checkbox"/> BAL
<input type="checkbox"/> W. Blood EDTA	<input type="checkbox"/> Paraffin Block	<input type="checkbox"/> Sputum
<input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride	<input type="checkbox"/> Smear	<input type="checkbox"/> Urine
<input type="checkbox"/> W. Blood Heparin	<input type="checkbox"/> Slide (H&E)	<input type="checkbox"/> Stool
<input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate	<input type="checkbox"/> Pus	<input type="checkbox"/> Swab
	<input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle	<input type="checkbox"/> Others

Other Sample Type / Source : DM

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature : Ambient Refrigerated Frozen

Date : _____ Time : _____

Patient ID _____ No. of vials/container _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s) _____

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

Biopsy

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature : Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
	

Total No. of Vials/Container _____

Specimen Collection Information

Date : _____ Time : _____

Fasting : Yes No Fasting Period : _____ Hrs.

Collection by : Mukesh

Urine Volume : _____ ml Hrs. _____

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client/Doctor's Signature
Date : _____



SHRI BALAJI'S

MULTISPECIALITY HOSPITAL

We Treat God Cure's

Sector-9-10, Basai Chowk, Basai Road, Gurgaon-122001 (Hr.)
Ph.: 2308382, Fax : 0124-2310384, Mob.: 9911912744, 9718208222
E-mail : hospitalshribalaji@yahoo.com

Date
08/01/17



An ISO Certified Hospital
9001 : 2008

Director

Dr. Balram Singh Maan (Physician)

Doctors on Panel

Internal Medicine & Cardiology

Dr. Tarun Thamb (M.D.)
Dr. Kamaldeep (MBBS, PGDCC)
Dr. Sanjeev Dahiya (M.D.)

Gynaecologist

Dr. Parul Jain (M.S.)
Dr. Shalini Singh (M.D.)
Dr. Poonam Jham (M.D.)

Pediatrics

Dr. Vipul Sharma (M.D.)
Dr. N. Monga (MD)
Dr. Suresh (MD)

Surgery

Dr. Rakesh Purkary (M.S.) Laproscopy
Dr. Puspender (M.S. M.ch (oncosurgery))
Dr. Rajiv Sharma (M.S.)

Orthopedics

Dr. A. Madan (M.S. Ortho)
Dr. Neeraj Yadav (M.S. Ortho)
Dr. Bhupender (M.S. Ortho)

ENT

Dr. Sunil Aggarwal (M.S. Ent)

Neuro Surgeon

Dr. Deepak (MCH)
Dr. Sanjay (MCH)

Urologist

Dr. Anurag Khaitan (MCH Urology)
Dr. Atul Jain (MCH Urology)
Dr. Chander Kant (MCH Urology)

Aneesthesia

Dr. Narender Dutt (M.D.)
Dr. Sumit Singh (M.D.)
Dr. Shalu (M.D.)

Physiotherapist

Dr. Pankaj Sharma (BPT)

Skin & VD

Dr. Ashutosh Sharma (M.D.) (On Call)

Ophthalmology

Dr. Sanjeev Bisla (M.S.)
Dr. Meenakshi (M.S.)

Dental Surgeon

Dr. Balwan Singh (B.D.S.)
Dr. Amit Kumar (B.D.S.)

Mrs. Bala Devi

Age - 42 Y / F

US 2 Ago - Uterin Fibroid

OP. PUS - Hystectomy done

& send to histopathology.

❖ 50 Bedded Hospital ❖ 24 Hours emergency / X-ray / Medical Shop, Laboratory and Ambulance, ❖ AirConditioned ICU, NICU with all modern equipments ❖ Deluxe Rooms ❖ Private Rooms & All General Wards. With All Modern equipments Operation Theater ❖ Super Specialist OPD Available in Pediatrics, Gynecology, Surgery, Orthopedics, Eye, ENT
Neuro, Urology & Internal Medicine, Cardiology

NOTE :- NOT VALID FOR COURT AND MLC PURPOSE

O.P.D. Timings : 9.00 a.m. to 1.00 p.m., 5.00 p.m. to 8.00 p.m.

NOTE :- AMBULANCE FREE IN EMERGENCY 3 K.M. FROM THE HOSPITAL CONTACT : 9468407690